

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 19/12/2020 को थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत शिवम् इण्टर कालेज ब्लॉक बी मनियारीपुर गंगापुर में आयोजित की जा रही जेल वार्डर, फायरमैन (पुरुष), आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 द्वितीय पाली की ऑफ लाइन लिखित परीक्षा (समय 14.00 बजे से 16.00 बजे तक) के दौरान समय करीब 15.25 बजे अभ्यर्थी गोविन्द कुमार कमरा NO.-7 अनुक्रमांक 2059120589 को नकल करते हुए प्रश्नों के उत्तर अंकित की गयी उत्तरपत्रिका की छायाप्रति के साथ ड्यूटी में नियुक्त उ०नि० रवीकान्त मलिक द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर अभ्यर्थी गोविन्द कुमार द्वारा बताया गया कि शैलेन्द्र कुमार सिंह जो परीक्षा केन्द्र में सहायक परीक्षा प्रभारी है, उन्होंने ही मुझसे 90 हजार रुपये लिए और प्रश्नों के उत्तर अंकित की गयी B सीरीज की उत्तरपत्रिका कक्ष निरीक्षक रोहित सिंह के माध्यम से उपलब्ध करायी थी। रोहित सिंह ने कुलदीप कुमार पटेल को फर्जी इलेक्ट्रीशियन का परिचय पत्र बनाकर ड्यूटी पर लगाया गया था। कुलदीप कुमार पटेल द्वारा प्रश्नों के उत्तर अंकित की गयी B सीरीज की उत्तरपत्रिका कक्ष निरीक्षक रोहित सिंह को ले जाकर दी जो रोहित सिंह ने मुझे उपलब्ध करायी। थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. शैलेन्द्र कुमार सिंह 2. कुलदीप कुमार पटेल व 3. रोहित सिंह तथा अभ्यर्थी गोविन्द को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा-420/409/411/120B/34 भादवि व उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि० 1998 की धारा -9/10 व 66 it Act व 7(क)/8/9/12/13(2)भ्र०नि० अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में संलिप्त और लोगों तथा अन्य बिंदुओं के सन्दर्भ में पुलिस टीम द्वारा गहनता से जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1 - गोविन्द कुमार पुत्र दीनानाथ राजभर निवासी कुत्तूपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र लगभग 22 वर्ष।
2. शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र लालचन्द राम पटेल निवासी मनियारीपुर थाना रोहनिया वाराणसी उम्र लगभग 34 वर्ष।
3. कुलदीप कुमार पटेल पुत्र मुन्नालाल पटेल निवासी मनियारीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र लगभग 19 वर्ष।
4. रोहित सिंह पुत्र श्याम नारायण वर्मा निवासी घमहापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र लगभग 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 1 - 90 हजार रुपये नगद
- 2 - 04 अदद मोबाइल फोन,

- 3 - 01 अदद प्रश्न पत्र पुस्तिका NO. 381642,
4 - 01 अदद उत्तर पुस्तिका NO. 346073 ,
5 - 01 अदद साल्व प्रश्नोत्तरी की छाया प्रति,
6 - 01 अदद परिचय पत्र

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**

1 – प्रभारी निरीक्षक रोहनिया परशुराम त्रिपाठी, निरीक्षक क्राइम ब्रान्च मिर्जापुर उदय प्रताप यादव, वरि.
उ.नि. जमीलुद्दीन खाँ, उ.नि. रविकान्त मलिक, आरक्षी अविनाश शर्मा व आरक्षी विश्वजीत पाण्डेय

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 79/2020 दिनांक: दिसम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 20.12.2020 को थानाध्यक्ष चौबेपुर संजय त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल के देखबाल क्षेत्र, चेकिंग बैक ड्यूटी व पुलिस भर्ती परिक्षा में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-503/2020 धारा-302/307/324 भादवि0 में वांछित अभियुक्त विनय चौबे उर्फ लल्लू पुत्र राजकिशोर चौबे निवासी ग्राम मुरीदपुर थाना चौबेपुर वाराणसी को उसके घर दबिश देकर समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*_-

- विनय चौबे उर्फ लल्लू पुत्र राजकिशोर चौबे ग्राम मुरीदपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

- थानाध्यक्ष चौबेपुर संजय त्रिपाठी व का0 उपेन्द्र यादव थाना चौबेपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 20.12.2020 को थाना लंका के उ0नि0 अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी चितईपुर मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में चौकी क्षेत्र चितईपुर में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक मोपेड गाड़ी में दो संदिग्ध व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के नहीं है वे दोनों एक बैग व झोले में चोरी का सामान लेकर कबीर वाटिका वृन्दावन सुसुवाही के पास मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के कबीर वाटिका वृन्दावन कर्मनवीर मोड़ पर पहुँचकर एकबारगी दबिश देकर उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से चोरी की 1 अदद एलजी एलईडी टीवी, 02 अदद घरेलू गैस सिलेन्डर, 01 अदद माइक्रोटेक इन्वर्टर, 01 अदद बैटरी, 06 अदद हाथ घड़ी, ₹0-1,08,027/- कुल एक लाख आठ हजार सत्ताइस रूपया, पीली धातु व सफेद धातु के जेवर/गहने पूर्ण व हिस्सों में टुटे हुये (24 प्रकार के भिन्न भिन्न संख्याओं में), 01 अदद चोरी का दो पहिया वाहन बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियुक्तगण राजू गुप्ता उर्फ बच्चा गुप्ता व संतोष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग पेशे से चोर है तथा हमारे पास चोरी का पैसा, गहना व कुछ अन्य सामान है। पैसा व गहना हम लोगो ने प्रज्ञापुरम कालोनी नासिरपुर, गणेशपुरी कालोनी तथा महामनापुरी कालोनी से चुराया था तथा बैग में एक टीवी है जिसे मनोरथपुरी कालोनी से चुराया था जिसको हम लोगो आज कैण्ट की तरफ रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डा पर चलते फिरते राहगीरो को बेचने के लिये लेकर जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

पंजीकृत मुकदमा-

➤ मु0अ0सं0 537/20, 806/20, 827/20, 830/20 अन्तर्गत धारा 457/380/411/34/413/467/468/471 भा0द0वि0 थाना लंका वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजू गुप्ता उर्फ बच्चा गुप्ता पुत्र स्व0 रमाशंकर गुप्ता निवासी ग्रा0 मोहनिया पो0 मोहनिया थाना मोहनिया जिला कैमूर, बिहार हाल पता 1. वृन्दावन कालोनी निकट जवाहर आदर्श इण्टर कालेज सुसुवाही थाना लंका वाराणसी व बी. 35/37 सरायनन्दन खोजवाँ, छित्तपुर महमूरगंज थाना भेलूपुर वाराणसी।
2. सन्तोष कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश प्रसाद गुप्ता निवासी एन 13/55 डी. 3एस सरायसुर्जन छोटी पटिया थाना भेलूपुर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद एलजी एलईडी टीवी
2. 02 अदद घरेलू गैस सिलेन्डर
3. 01 अदद माइक्रोटेक इंवर्टर
4. 01 अदद बैटरी
5. 06 हाथ घडियां
6. ₹0-1,08,027/- (एक लाख आठ हजार सत्ताइस रूपया)
7. पीली धातु व सफेद धातु के जेवर/गहने पूर्ण व हिस्सो में टुटे हुये (24 प्रकार के भिन् भिन्न संख्याओ में)
8. 1 अदद दो पहिया चोरी का वाहन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 अर्जुन सिंह चौकी प्रभारी चितईपुर
2. उ0नि0 राकेश राय गौतम
3. उ0नि0 जैस्वारा विजय कुमार
4. का0 बलवन्त कुमार
5. का0 रोहित कुमार मौर्या
6. का0 सत्यानन्द राव
7. का0 राजेश कुमार

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 82/2020 दिनांक: दिसम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

दिनांक 19/12/2020 को थाना रोहनिया क्षेत्रान्तर्गत शिवम् इण्टर कालेज ब्लॉक बी मनियारीपुर गंगापुर में आयोजित की जा रही जेल वार्डर, फायरमैन (पुरूष), आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 द्वितीय पाली की ऑफ लाइन लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी गोविन्द कुमार को नकल करते हुए प्रश्नों के उत्तर अंकित की गयी उत्तरपत्रिका की छायाप्रति के साथ पकड़ा गया था। आज दिनांक 20-12-2020 को अभियुक्तगण से पूछताछ एवं साक्ष्य के आधार पर शैलेन्द्र कुमार सिंह केन्द्र सहायक प्रभारी, रोहित सिंह कक्ष निरीक्षक, कुलदीप कुमार पटेल इलेक्ट्रिशियन को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिन्हे न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच जारी है। जांच के दौरान योगेन्द्र वर्मा पुत्र लालजी वर्मा नि0 सजोई थाना जंसा वाराणसी, गौरी शंकर पुत्र कल्लू पटेल नि0 सजोई थाना जंसा वाराणसी एवं विनय कुमार सिंह पुत्र राम दुलार सिंह नि0 हरपालपुर थाना लोहता वाराणसी से गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में प्रकाश में आये अन्य संदिग्धों की तलाश एवं दबिश हेतु पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 81/2020 दिनांक: दिसम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 234/2020 धारा 328/376/354ख/504/506भादवि का वांछित अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता गिरफ्तार

आज दिनांक 20.12.2020 को थाना पाण्डेयपुर वाराणसी के उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी द्वारा मय हमराह पुलिस बल के संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 234/2020 धारा 328/376/354ख/504/506भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी के वांछित अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता को समय लगभग 19:40 बजे लेबर तिराहा हुकुलगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रहलाद गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता निवासी म0नं0डी 37/96 बड़ादेव थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी उम्र 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 254/09 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना शिवपुर वाराणसी
2. मु0अ0स0 126/16 धारा 323/342/354/376/394/504/506/511 भा0द0वि0 थाना दशाश्वमेघ वाराणसी
3. मु0अ0स0 33/17 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना दशाश्वमेघ वाराणसी
4. मु0अ0स0 105/17 धारा 147/323/324/504/506 भा0द0वि0 थाना चौक वाराणसी
5. मु0अ0स0 160/17 धारा 354/427/452/504/506 भा0द0वि0 थाना दशाश्वमेघ वाराणसी
6. मु0अ0स0 323/17 धारा 379/342/323/504/506/394/354/376/511/507 भा0द0वि0 व 66ई आईटी एक्ट थाना भेलूपुर वाराणसी
7. मु0अ0स0 0009/18 धारा 147/294/323/427/504/452/506 भा0द0वि0 थाना दशाश्वमेघ वाराणसी
8. मु0अ0स0 109/19 धारा 379/342/323/504/506/394/354/376/511/507/506 भा0द0वि0 व 66 ए,बी,ई आईटी एक्ट थाना दशाश्वमेघ वाराणसी
9. मु0अ0स0 140/19 धारा 120बी/147/306/511 भा0द0वि0 थाना चेतगंज वाराणसी
10. मु0अ0स0 1356/19 धारा 147/323/354ख/386/392/427/504/506/509 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी
11. मु0अ0स0 193/20 धारा 504/506/507 भा0द0वि0 व 67 आईटी एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 सुधीर कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
2. व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
3. उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
4. उ0नि0 कमलेश वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
5. का0 देवमणि त्रिपाठी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
6. का0 हरिन्द्र सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 83/2020 दिनांक: दिसम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 20-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 26 व्यक्तियों से रु0-1600 जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 794 वाहनों का चालान तथा 29 वाहनों से रु0-28,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 68 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 2162 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 537 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 71 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 412 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 56 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।